

## व्याख्या और अनुवाद सेवाएं व्यवस्थित

अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक

### (A) व्याख्या और अनुवाद सेवाओं की संख्या

मट	व्याख्या सेवाएं (संख्या)	अनुवाद सेवाएं (संख्या)
1. सेवा उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए सेवाओं के अनुरोधों की संख्या जिनमें से:	<b>0</b>	<b>0</b>
(a) अनुरोध किए गए	<b>(a) 0</b>	<b>(a) 0</b>
(b) अनुरोध अस्वीकार किए गए	<b>(b) 0</b>	<b>(b) 0</b>
2. सेवा उपयोगकर्ताओं को लगातार ढी जाने वाली सेवाओं की संख्या जिनमें से:	<b>0</b>	<b>0</b>
(a) सेवाओं की आवश्यकता	<b>(a) 0</b>	<b>(a) 0</b>
(b) सेवाओं की आवश्यकता नहीं	<b>(b) 0</b>	<b>(b) 0</b>
3. परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यवस्थित सेवाओं की संख्या (नोट 1)	<b>0</b>	<b>0</b>
संपूर्ण:	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>(1(a)) + (2(a)) + 3)</b>	<b>(1(a)) + (2(a)) + 3)</b>

### (B) भाषा द्वारा व्याख्या और अनुवाद सेवाएं (नोट 2)

भाषा	व्याख्या सेवाएं (संख्या)	अनुवाद सेवाएं (संख्या)
1. बहासा इंडोनेशिया	0	0
2. हिंदी	0	0
3. नेपाली	0	0
4. पंजाबी	0	0
5. नाटागालोग	0	0
6. थाई	0	0
7. उर्दू	0	0
8. वियतनामी	0	0
9. अन्य	0	0

**(C) सेवा उपयोगकर्ताओं द्वारा दर्ज की गई शिकायतें जिनकी व्याख्या / अनुवाद  
आवश्यकताएँ हैं**

प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या: \_\_\_\_\_ 0

नोट 1: उदाहरणों में बैठकों और सार्वजनिक कार्यक्रमों आदि के लिए व्यवस्थित व्याख्या सेवाएं शामिल हैं।

नोट 2: व्याख्या या अनुवाद सेवा के प्रत्येक मामले के लिए, एक से अधिक सेवा प्रदाता और एक से अधिक विटेशी आषा शामिल हो सकती हैं।

हां गकां न मॉने टरी अथॉरिटी

अप्रैल 2023